



# झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

संख्या- 76 राँची, गुरुवार, 12 माघ, 1939 (श०)  
1 फरवरी, 2018 (ई०)

---

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

-----  
आदेश

8 दिसम्बर, 2017

संख्या-5/आरोप-1-164/2017 का.-12015 -- श्री चन्दन, झा०प्र०से० (पंचम बैच), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, केरेडारी, हजारीबाग के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-5337, दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 द्वारा अनधिकृत रूप से अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहने, स्वेच्छाचारित एवं अनुशासनहीनता संबंधी आरोप प्रपत्र-‘क’ में गठित कर उपलब्ध कराते हुए श्री चन्दन को निलंबित करने एवं इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने की अनुशंसा की गयी ।

2. उक्त आरोपों हेतु श्री चन्दन को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है ।

3. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची निर्धारित किया जाता है । जहाँ वे प्रतिदिन बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली के अन्तर्गत उपस्थिति दर्ज करेंगे तथा उपस्थिति के आधार पर ही इन्हें झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**सूर्य प्रकाश,**

सरकार के संयुक्त सचिव ।

-----